

SATURDAY, OCTOBER 31, 2015

Date : 29.10.2015 and COO & CFO.

CARNATION INDUSTRIES LTD.

Regd. Office : 28/1, JHEEL ROAD, LILUAH,
P.O.- SALKIA, HOWRAH - 711106.
Ph. No.: (+91-33) 2280 3127, Fax : 2287 9938
Email: sanjay@camarnationindustries.com
Website : www.camarnationindustries.com
CIN: L27209WB1983PLCO35920

NOTICE

Pursuant to clause 41 of the Listing Agreement, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 12th November, 2015 to consider and approve among other matters the Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2015.

By Order of the Board

Place : Kolkata Sanjay Agarwal
Date : 30.10.2015 Company Secretary

Selan Exploration Technology Limited

Regd. Office: J-47/1, Shyam Vihar,
Dindarpur, Najafgarh, New Delhi-110043
CIN: L74899DL1985PLCO21445
Website: www.selanoil.com
E-mail: investors@selanoil.com
Tele Fax No.: 0124-4200326

NOTICE

Notice (pursuant to Clause 41 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges) is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 07 November 2015 to consider and take on record, *inter-alia*, the Unaudited (Provisional) Financial Results for the quarter ended 30 September 2015.

For Selan Exploration Technology Ltd.

Sd/-

Place: New Delhi Meenu Goswami
Date: 30 October 2015 Company Secretary



TREE HOUSE EDUCATION & ACCESSORIES LIMITED

5	Profit (+)/Loss (-) from Ordinary Activities before Finance Costs	936.25	1262.22	822.79	2198.47	1895.6
6	Finance Costs	35.90	6.71	7.62	42.60	70.3
7	Profit (+)/Loss (-) from Ordinary activities after Finance Cost but before exceptional items (5-6)	900.35	1255.51	815.17	2155.86	1825.4
8	Exceptional items	-	-	-	-	-
9	Profit (+)/Loss (-) from Ordinary Activities before Tax (7-8)	900.35	1255.51	815.17	2155.86	1825.4
10	(a) Tax Expenses - Current Year	325.88	426.24	310.00	752.12	520.0
	(b) - Earlier Years	-	-	-	-	-
	(c) - Deferred Tax	4.54	0.50	121.00	5.04	172.0
11	Net Profit(+)/Loss(-) from ordinary activities After Tax (9-10)	569.93	828.77	384.17	1398.70	1133.4
12	Extraordinary Items	-	-	-	-	-
13	Net Profit(+)/Loss(-) for the period (11+12)	569.93	828.77	384.17	1398.70	1133.4
14	Paid-up Equity Share Capital (Face Value Rs.10) Per Share	3860.33	3860.33	3860.33	3860.33	3860.3
15	Reserve, Excluding Revaluation Reserve as per Balance Sheet of Previous Accounting year	-	-	-	-	-
16	Earnings per Share (EPS) - Rupees					
	(a) Basic and diluted EPS before extraordinary items for the year to date and for the previous year - Rupees	1.48	2.15	1.00	3.62	2.9
	(b) Basic and diluted EPS after extraordinary items for the year to date and for the Previous year- Rupees	1.48	2.15	1.00	3.62	2.9
	PART II					
A	Particulars of Share Holding					
	1. Public Share Holding					
	- Number of Shares	18349903	18349903	18349903	18349903	183499
	- Percentage of Share Holding	47.53%	47.53%	47.53%	47.53%	47.53
	2. Promoters and Promoter Group Shareholding					
	(a) Pledged / Encumbered - Number of Shares	NIL	NIL	NIL	NIL	N
	- Percentage of Shares (as a% of the total Shareholding of Promoter and Promoter Group)	-	-	-	-	-
	- Percentage of Shares (as a% of the total Share Capital of the Company)	-	-	-	-	-
	(b) Non-Encumbered - Number of Shares	20253347	20253347	20253347	20253347	202533
	- Percentage of Shares (as a% of the total shareholding of Promoter and Promoter Group)	100%	100%	100%	100%	100
	- Percentage of Shares (as a% of the total Share Capital of the Company)	52.47%	52.47%	52.47%	52.47%	52.47
B	Investor Complaints					
	Pending at the beginning of the quarter	NIL				
	Received during the Quarter	3				
	Disposed during the Quarter	1				
	Remaining Unresolved at the end of the Quarter	2				

STATEMENT OF ASSETS AND LIABILITIES

PARTICULARS	As at	
	30.09.2015	31.03.2015
EQUITY AND LIABILITIES		
Share Holders' Fund		
(a) Share Capital	3860.33	3860.33
(b) Reserves & Surplus	7455.70	6056.98
	11316.02	
Non Current Liabilities		
(a) Long Term Borrowings	111.80	123.06
(b) Deferred Tax Liabilities (Net)	110.06	105.02
(c) Long Term Provisions	198.80	164.05
	420.67	
Current Liabilities		
(a) Short Term Borrowings	2146.53	1093.16
(b) Trade Payables	4616.08	3145.23
(c) Other Current Liabilities	241.82	271.08
(d) Short Term Provisions	2516.33	1763.51
	9520.77	
TOTAL	21257.46	1763.51
ASSETS		
Non-Current Assets		
(a) Fixed Assets		

पार्टी सदस्यों पर लगाम लगाएं

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (भाषा)। गोमांस और अन्य मुद्दों पर फैले तनाव का हवाला देते हुए वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज की विश्लेषण इकाई ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी के सदस्यों पर लगाम लगाना चाहिए नहीं तो उनके लिए घरेलू और वैश्विक स्तर पर विश्वसनीयता खोने का खतरा है। मूडीज एनेलिटिक्स ने एक रपट में कहा कि भाजपा का राज्यसभा में बहुमत नहीं है इसलिए सुधारों की दृष्टि से महत्वपूर्ण कई विधेयक पारित नहीं हो पा रहे और विपक्ष का रवैया अवरोधक की तरह है। लेकिन हाल में सरकार ने भी स्वयं अपने लिए कोई अच्छा काम नहीं किया क्योंकि भाजपा के कई सदस्य विवादित टिप्पणी करते रहे।

मूडीज ने कहा, 'मोदी ने आम तौर पर राष्ट्रवादी तत्वों की टिप्पणियों से अपने आप को दूर रखा है पर विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को उन्मादी तरीके से उकसाने से सामुदायिक तनाव पैदा हुए हैं।' मूडीज ने कहा, 'हिंसा बढ़ने से सरकार को राज्यसभा में और कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा और ऐसे में वहां बहस आर्थिक नीति से भटक जाएगी। मोदी को अपने पार्टी सदस्यों पर लगाम रखना चाहिए नहीं तो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता खत्म होने का जोखिम है।' रपट में कहा गया, 'मोदी को अपने पार्टी सदस्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए नहीं तो घरेलू व वैश्विक विश्वसनीयता खोने का जोखिम है।'

बाजार में पांचवें दिन गिरावट, सूचकांक 181 अंक नीचे आया

मुंबई, 30 अक्टूबर (भाषा)। घरेलू शेयर बाजार में लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई और बंबई शेयर बाजार का सूचकांक 181 अंक गिरकर एक महीने के न्यूनतम स्तर 26,656.83 अंक पर बंद हुआ। आइटीसी और एलएंडटी जैसी बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहने से बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सूचकांक और निफ्टी में दोनों में सर्वाधिक गिरावट आइटीसी में दर्ज की गई। कंपनी का शेयर मूल्य 4 फीसद से अधिक नीचे आ आ गया। इसका कारण कंपनी के वित्तीय नतीजों का निवेशकों की आशा के अनुरूप नहीं होना है। आइटीसी का एकल आधार पर शुद्ध लाभ सितंबर तिमाही में मामूली रूप से बढ़कर 2,431.25 करोड़ रुपए रहा। वहीं एल एंड टी का शुद्ध लाभ बाजार की उम्मीद के अनुरूप नहीं रहने से कंपनी का शेयर 4.11 फीसद नीचे आया। नवंबर महीने की डेरिवेटिव्स श्रृंखला की शुरूआत सकारात्मक रही। तीस शेयरों वाला सूचकांक शुरुआती कारोबार में 105 अंक की तेजी के साथ 26,942.29 अंक पर पहुंच गया लेकिन बाद में कुछ प्रमुख कंपनियों के वित्तीय परिणाम बाजार की उम्मीद के अनुरूप नहीं रहने से बिकवाली की गई और सूचकांक 26,585.20 अंक तक नीचे चला गया।

Selan Exploration Technology Limited
 Regd. Office: J-47/1, Shyam Vihar,
 Dindarpur, Najafgarh, New Delhi-110043
 CIN: L74899DL1985PLC021445
 Website: www.selanoil.com
 E-mail: investors@selanoil.com
 Tele Fax No.: 0124-4200326

NOTICE

Notice (pursuant to Clause 41 of the Listing Agreement with the Stock Exchanges) is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, 07 November 2015 to consider and take on record, inter-alia, the Unaudited (Provisional) Financial Results for the quarter ended 30 September 2015.

For Selan Exploration Technology Ltd.

Place: New Delhi
 Date: 30 October 2015

JINDAL PHOTO LTD.
 Regd. Off.: 26/23, Sheetal Industrial Estate,
 Demani Road, Dadra, (UT OF D&NH)
 CIN : L33209DN2004PLC000198
 E-mail : cs_jphoto@jindalgroup.com
 Website : www.jindalphoto.com
 Fax : 91-11-25767029
 Telephone No. : 91-11-25767000

NOTICE

In terms of listing agreement, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 7th day of November, 2015 at New Delhi inter-alia to consider and approve the Unaudited Financial Results for the second quarter ended on 30.09.2015.

Date : 29.10.2015
 Place: New Delhi Company Secretary

PTC India Financial Services Limited

सुधार की दर में 1.25
 4, Rajendra
 0008
 C000004
 (11) 25765214
 dcm.in
 मूडीज ने कहा, 'मोदी ने आम तौर पर राष्ट्रवादी तत्वों की टिप्पणियों से अपने आप को दूर रखा है पर विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को उन्मादी तरीके से उकसाने से सामुदायिक तनाव पैदा हुए हैं।' मूडीज ने कहा, 'हिंसा बढ़ने से सरकार को राज्यसभा में और कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा और ऐसे में वहां बहस आर्थिक नीति से भटक जाएगी। मोदी को अपने पार्टी सदस्यों पर लगाम रखना चाहिए नहीं तो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विश्वसनीयता खत्म होने का जोखिम है।' रपट में कहा गया, 'मोदी को अपने पार्टी सदस्यों पर नियंत्रण रखना चाहिए नहीं तो घरेलू व वैश्विक विश्वसनीयता खोने का जोखिम है।'

NIM
 याचिकाकर्ता (formal) दी जाली है कि 2013 की धारा 23 के अंतर्गत करने में बदलीकरण हेतु नॉक 31 अगस्त, 2015 को आवेदन के लिए प्रस्तावित है, वह इस सूचना के अंदर - अंदर नोहित अपने हित की उल्लंघन करते हुए 2015-16 वित्त, द्वितीय कोम्प्लेक्स, नई दिल्ली के कार्यालय में
 प्लानडल की आज्ञा से प्राइवेट लिमिटेड (सोहम्मद दाऊद) निदेशक
 DIN : 02766797

PUBLIC NOTICE OF PROCLAMATION OF SALE
 (Under Order dated 17.04.2015 read with Order dated 11.05.2015 of the Hon'ble High Court at New Delhi)

All concerned are hereby notified that by order dated 17th April, 2015 read with Order dated 11th May, 2015 in Ex. P. No. 182/2014 titled **Harvinder Singh Bhasin and Others Vs. Yashpal Singh Chauhan and Another**, the Hon'ble High Court of Delhi has directed the sale of the property mentioned below in the aforesaid Execution Petition pending before the Hon'ble High Court.

The particulars of the property in respect of which auction is to be held are as under:

S/No.	Name of Parties as per court record	Petition No.	Description of the immovable property under auction	Reserve price (Rs.)	EMD (10%)
1.	Mr. Harvinder Singh Bhasin	E A (OS) No. 398/2014 and Ex. Appl. (OS) No. 311/2015	Shop bearing No. DSC-258, DLF, South Court, Saket, New Delhi-110017, Admeasuring 1345 sq. ft., (1 st Floor)	Rs. 2,30,00,000/- (Rupees Two Crores Thirty Lacs only)	23 Lacs
2.	Mrs. Komal Bhasin				
3.	Mr. Deepak Bhasin				
4.	Mrs. Rinkoo Bhasin				
	Versus				
	1. Mr. Yashpal Singh Chauhan	In Ex. P. No. 182/2014			
	2. Mrs. Madhuri Chauhan				

Terms and Conditions of Sale

- The auction sale of the above mentioned property will be held on 05th December 2015, from 2:00 p.m. onwards at Neeti Bagh Club, Neeti Bagh (Near Gulmohar Park), New Delhi-110049 and will continue till its conclusion without any break. In case no bidder reports till 4:30 p.m., the Court Auctioneer shall have the authority to conclude the auction as unexecuted.
- Detailed terms and conditions of the auction together with the Bid Form are available free of cost with Mr. Sonu (Mob. No.: 09654194745, Mr Pushpander Off. No. : 01140817514) at F-20 (Basement), East of Kailash, New Delhi-110065. The detailed terms and conditions of the auction have also been uploaded on the website www.aslawassociates.com
- The intending bidders may contact the aforesaid for inspection of the property and collect the Bid Form and the terms and conditions of the auction. The Bid Form can also be downloaded from the above website or can also be typed in the same format.
- The intending bidders should send their duly filled bids in the prescribed Bid Form (or typed in the same format) in a closed cover /envelope for the said property along with 10% of the reserve price as earnest money deposit by way of bankers cheque /pay order / demand draft favoring "THE REGISTRAR GENERAL, DELHI HIGH COURT" payable at Delhi on or before 05th December 2015, 1:00 p.m. at the above mentioned address i.e. F-20 (Basement), East of Kailash, New Delhi-110065. Acceptance of the duly filled Bid Form with the earnest money deposit as aforesaid after 1:00 p.m. shall be at the sole discretion of the Court Auctioneer.
- The intending bidders who will submit the offer/Bid Form with earnest money deposit (10% of the reserve price) by banker's cheque /pay order /demand draft will be eligible to participate in the auction on 05th December 2015 at 2:00 p.m. The offer /Bid Form without EMD will be summarily rejected.
- The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (inclusive of EMD) immediately after the Auction on the same day of the sale by way of cheque or Demand Draft or Pay Order or Bankers Cheque as above and balance 75% of the bid within 15 days from the date of the confirmation of the sale.
- The property can be inspected on 14th to 15th Nov. 2015 between 2:00 p.m. to 5:00 p.m.
- The bidders should make individual enquiry about the property and dues thereagainst at their own level. The property is being auctioned/sold on "AS IS WHERE IS AND WHATEVER THERE IS" basis. The successful bidder shall have to bear statutory dues, taxes, charges, fees etc. payable for conveyance such as stamp duty, registration fees etc. as applicable as per the law and income tax laws.
- The court auctioneer has absolute right to accept or reject any or all bid(s) offers and adjourn /postpone /cancel the auction without assigning any reason therefore and also to modify the terms and conditions of the sale without prior notice.
- The auction sale in favour of the successful bidder shall however, be subject to any order that may be passed by the Hon'ble High Court of Delhi.
- The intending bidders are required to take note of all the detailed terms and conditions of the Auction (provided separately in the website or can be obtained from the aforesaid address) and satisfy themselves before participation.

Sd/-
 Date: 31.10.2015
 Place: New Delhi
P.S.CHAGGAR
 Court Auctioneer

सार्वजनिक सूचना



ICICI Bank Limited

कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, लैंडमार्क, रिस कोर्स सर्किल, वडोदरा 390007
 कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई-400051
 कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लि., एससीओ-129-130, द्वितीय तल, सेक्टर-9 C, चंडीगढ़- 160017
 सूचना दी है कि निम्नलिखित कर्जदारों, बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन एवं ब्याज को चुकौती करने में असफल रहे हैं। बैंक असेट्स (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उनको नोटिस दिनांक 10.09.2015, वित्तीय परिस्थितियों के तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन उनके हारा बैंक को उपलब्ध कराए गए अनुसार कार्रवाई की गई थी, कि उसके अतिरिक्त निम्नलिखित कथित कर्जदारों के सूचनार्थ, कथित कर्जदारों को इस सार्वजनिक सूचना दी जा रहा है।

कर्जा का नाम एवं पता	प्रवर्तित की जाने वाली सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण	संग सूचना की तिथि	सूचना (नोटिस) की तिथि को बकाया राशि	ऋण खाता संख्या/ ऋण सुविधा खाता संख्या	एनपीए की तिथि
श्री. प्रो.लि. इसके निदेशकों की धोरी एवं कुशल पाल सिंह 90, प्रथम तल, सेक्टर-32 (सह-कर्जदार) एवं श्री...	FORD FIGO I.4 CH01AM1642	10.09.2015	143815.00	LACHD0002 5677105	18.10.2014